



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 905 राँची, सोमवार, 18 नवम्बर, 2019 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 नवम्बर, 2019

**संख्या- 5/आरोप-1-43/2014 का०- 8971--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनुप किशोर शरण, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-545/03, गृह जिला-पटना), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के विरुद्ध विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की अवहेलना करने, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अवहेलना करने तथा मुख्यालय में आवासन नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-771, दिनांक 28.06.2013 द्वारा 28.06.2013 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री शरण के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री शरण को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित

होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री शरण द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री शरण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----